

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10] दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2018, बृहस्पतिवार/श्रावण 5— श्रावण 11, 1940
 No. 10] DELHI, JULY 27—AUGUST 2, 2018, THURSDAY/SHRAVANA 5—SHRAVANA 11, 1940

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 520/2012

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

सईद मुदस्सिर अली

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

मून अप इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (अस्थायी समापन में)

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) धारा 434 तथा धारा 439 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तिथि 03.11.2012 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति तथा (अस्थायी समापन में) हेतु एक याचिका सईद मुदस्सिर अली जो की एल. बी. राय & कंपनी, 305 लक्ष्मण पैलेस, तीसरी मंजिल, नियर मधुबन क्रासिंग, ठिकाना गेस्ट हाउस, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, द्वारा प्रस्तुत की गयी थी और कथित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.08.2018 को सुबह 10.30 बजे सुनवाई हेतु निर्देशित है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 07.08.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी।

कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए।

रजिस्ट्रार

दिल्ली उच्च न्यायालय

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 2018

हस्ता./-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वां तल, लोक नायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

फोन नं.- 011-24693393

[विज्ञापन ए-II/II/11/18]

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)**

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

SYED MUDASSIR ALI

... PETITIONER

VERSUS

MOONUP INFOTECH (P) Ltd.

... RESPONDENT

C. P. No. 520/2012

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433 (e) & (f) read with Section 434 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court at New Delhi on 03.11.2012 was presented to the Hon'ble High Court by the Syed Mudassir Ali, creditor of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 12.02.2013 & 16.03.2018 passed in C.P. No. 520/2012 appointed the Official Liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 07.08.2018.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e.

07.08.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undermentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court and a copy served on the undermentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd./-

REGISTRAR
DELHI HIGH COURT
NEW DELHI

(D. K. SINGH)
OFFICIAL LIQUIDATOR,
ATTACHED TO THE HON'BLE
HIGH COURT OF DELHI
8TH FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Phone No. 011-24693393
[ADVT. A-II/II/11/18]